Regd. Off: 910, Chiranjiv Tower, 43-Nehru Place, New Delhi-110019 CIN No.: L72100DL1972PLC005971

Tel: 011-2644 1015-17, Fax: 011-2644 1018

website: www.perfectpac.com, e-mail: complianceofficer@perfectpac.com

January 29, 2021

BSE Ltd.,

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001 Scrip Code No. **526435**

The Calcutta Stock Exchange Limited,

7, Lyons Range, Kolkata 700001 Stock Code **026097**

Sub: <u>Submission of copies of Newspaper Advertisement- Unaudited</u> <u>Financial Results</u>

Dear Sir,

Further to our letter dated January 28, 2021 regarding approval of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020. Please find enclosed herewith newspaper advertisement published, in compliance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in Pioneer (English) and Pioneer (Hindi) on January 29, 2021.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Perfectpac Limited

Shefali Chauhan Company Secretary

company occious

Encl: as above

Markets recoil for 5th day NPCI let WhatsApp go

SENSEX SLUMPS 536 PTS AMID **GLOBAL SELL-OFF**

PTI MUMBAI

Equity indices nosedived for the fifth straight session on Thursday as investors took money off the table amid for-eign fund outflows and heavy selling in global markets.

Participants also preferred to remain in a risk-averse mode

ahead of the Union Budget next week, traders said.

The 30-share BSE Sensex skidded 535.57 points or 1.13 per cent to finish at 46,874.36. Similarly, the broader NSE Nifty tumbled 149.95 points or

1.07 per cent to 13,817.55. The Sensex has now lost 2,917.76 points in five days, while the Nifty has retreated 827.15 points.

HUL was the top loser in the Sensex pack on Thursday, shedding 3.65 per cent, fol-

lowed by Maruti, HDFC Bank, PowerGrid, Kotak Bank, IndusInd Bank, HCL Tech and Bajai Finsery.

On the other hand, Axis Bank, SBI, ONGC, ICICI Bank and UltraTech Cement were among the gainers, jumping up to 6.16 per cent.

On the global front, Wall Street posted its biggest oneday percentage drop in three months amid a wave of profitbooking, even as the US Fed left the benchmark interest rate unchanged near zero and vowed to maintain its bond buying program.

Asian and European bourses too wilted under selling pressure amid unabated rise in COVID-19 cases.

Market turned cautious after the unidirectional upside of the last 10 months due to ambiguity ahead the Budget and profit booking in the glob-al market due to over-enthusi-

"Global risk parameters increased despite the US Fed maintaining its supportive pol-icy, due to high speculation in the equity market and likely drop in fiscal and monetary liq-uidity in the future, said Vinod Nair, Head of Research at Geojit Financial Services.

BSE realty, IT, FMCG,

teck, auto and healthcare indices lost up to 2.07 per cent, while oil and gas, telecom, bankex and consumer durables managed to close in the green.

The broader BSE midcap and smallcap indices slipped up to 0.46 per cent. According to traders,

recent foreign fund outflows from the domestic capital markets are also weighing on market momentum.

Foreign portfolio investors (FPIs) offloaded shares worth ₹ snaps 6-day winning run, skids 13 paise to

Snapping its six-session rising streak, the rupee depreciated by 13 paise to end at 73.05 against the US dollar on Thursday, tracking muted domestic equities and a strengthening American currency over-

73.05 against \$

Foreign fund outflows and a sell-off in global markets also weighed on the local unit, forex traders

a net Rs 1,688.22 crore on Wednesday, according to pro-

live on UPI after full compliance: RBI to SC

IANS IN NEW DELHI

The Reserve Bank of India has told the Supreme Court that the National Payment Corporation of India (NPCI) allowed WhatsApp to "go live" on UPI only after ensuring it was fully compliant with its circular.The central bank also stressed the ones is on the stressed the onus is on the NPCI to respond on the status of compliance of WhatsApp, Google and Amazon with the system rules/procedural guide-lines governing the Unified Payments Interface (UPI).

In an affidavit, the RBI said: "NPCI is the system provider of UPI and, therefore, comes under the regulatory radar of the RBI. Since it was NPCI that allowed Amazon, Google and WhatsApp to operate under UPI, the responsibility to ensure that these entities comply with all the rules/regulations/guidelines governing UPI lies with the

The RBI added that the NPCI was advised not to permit full scale operations of WhatsApp till the time they are fully compliant with the requirements of the RBI directions."NPCI subsequently allowed 'go live' of WhatsApp on UPI only after ensuring that WhatsApp was fully compliant with the circular," it said in the affidavit.

The RBI issued directions through a circular on April 6, 2018 on storage of payment system data and not data sharing or privacy. It said it has not issued any instructions on data sharing by Third-Party App Providers (TPAPs) or the participants of UPI, and matters related to data privacy and data sharing come under the

India's rank slips to 86th in corruption perception index

India's rank has slipped six places to 86th among 180 countries in a corruption per-

ception index (CPI) in 2020.

For 2020, Transparency
International (TI)'s corruption
perception index was released on Thursday.

The index, which ranks

180 countries and territories by their perceived levels of public sector corruption according to experts and business people, uses a scale of 0 to 100, where 0 is highly corrupt and 100 is very clean.

India's rank is 86 out of 180 nations with a score of 40.

"India was ranked at 80th osition out of 180 countries in 2019. The CPI score for India is constant this year as well as the previous year's score," the

This year, New **Zealand and** Denmark were ranked at first position with scores of 88

index said.

India is still very low on corruption Index, the report said, noting that experts feel the CPI does not reflect the actual corruption level in any country. The integrity score determines the corruption situation of a country.

This year, New Zealand and Denmark were ranked at first position with scores of 88. Somalia and South Sudan were ranked lowest at 179th position with scores of 12.

Centre's market borrowings to remain at elevated levels in FY22

New Delhi: Centre's FY22 market borrowings are expected to remain at an elevated level, even as external deficit financing is set to increase, India Ratings and Research (Ind-Ra) has said. Accordingly, the ratings agency expects the gross market borrowings of the Central Govt to be ₹10.82 trillion and net market borrowings to be ₹9.02 trillion in FY22.In FY21 (April-November), the Central government has already borrowed ₹12.16 trillion against its revised borrowing target of ₹12 trillion. "The accommodative

monetary policy stance, weak corporate sector demand, excess banking sector liquidi-ty, higher savings especially by households, and higher external financing (mainly borrowing from multilateral institutions such as the World Bank) helped the government to fund its deficit smoothly and reduce pressure on domestic interest rates," the report said.

At present, India does not finance its deficit by raising sovereign bonds, it borrows from multilateral donor agencies to benefit from a long tenor

Airtel says network 5G ready **Demonstrates** live 5G service

over commercial

network in Hyd

PTI NEW DELHI

Bharti Airtel on Thursday said its network is 5G ready now as the telco successfully demonstrated live fifth generation service - with ultra high speeds - over a commercial network in Hyderabad city.

The move assumes significance as telcos are gearing up to leverage 5G as the next frontier for future growth to bolster revenues and

provide stronger customer

While the latest demonstration underscores the company's technology capabilities for rolling out of fifth generation services in future,
Airtel said the actual

impact of 5G experience will be available to customers, "when adequate spectrum is available and government approvals are received". For the demo run, the company leveraged existing liberalised spectrum in the 1800 MHz band. "In many ways now, it is a

flick of a button to turn on 5G. It is important that we get the right 5G experience for which adequate spectrum in the right bands need to be made avail-

"Today, we have conclu-

sively demonstrated that as far as Airtel is concerned, we are 5G ready," Bharti Airtel MD and CEO Gopal Vittal said at a virtual conference.

The company said Airtel 5G is capable of delivering 10x speeds, 10x latency and 100x concurrency when compared to existing technologies. Specifically, in Hyderabad, users were able to download a full length movie in a matter of seconds on a 5G phone.

Using dynamic spectrum sharing, Airtel seamlessly operated 5G and 4G concurrently within the same spectrum block. The company said its demonstration has validated the 5G readiness of Airtel's network across all domains radio, core and transport.

84% Indian consumers feel Al drives better customer experience

Indian consumers agree that Artificial Intelligence (AI) has the potential to provide better customer experience, improve brand reputation, and increase customer loyalty, a study revealed on Thursday. According to software

study surveyed over 1,000 consumers in India on their views about AI as it relates to morality, ethical behaviour and Indian consumers gener-

company Pegasystems, the

ally trust new technologies like AI if they see the potential to improve their productivity and

New Delhi: About 84 per cent make things simpler. But at the same time, respondents still worry about the ethics behind AI and the potential for it to act with bias, the company said in a statement. The study also indicated that almost 78% are comfortable interacting with AI for business-related queries.

"This presents an important opportunity for Indian companies to accelerate their AI adoption -- particularly as the pandemic forces them to increase their digital engage-The data also showed that ment capabilities," Suman Reddy, Managing Director, Pegasystems India, said in a

FDI in Nov 2020 increased to USD 8.51 bn

PTI NEW DELHI

 $F^{
m oreign}$ direct investment (FDI) into the country jumped to USD 8.51 billion in November 2020 from USD 2.8 billion in the same month of 2019, according to the Commerce and Industry Ministry data. Total FDI, including re-

invested earnings and other capital, during the month under review grew by 81 per cent to USD 10.15 billion.

FDI grew by 37 per cent to USD 43.85 billion during April-November 2020.

GAIL Gas awarded as 'City Gas Distribution-Established Company of the Year' by FIPI

New Delhi: GAIL Gas Limited has been awarded the 'City Gas Distribution - Established Company of the Year' by Federation of Indian Petroleum Industry (FIPI). The award was given by Hon'ble Union Minister of Petroleum & Natural Gas and Steel, Shri Dharmendra Pradhan to Chairman & Managing Director, GAIL Shri Manoj Chie Officer, GAIL Gas Shri M.V. ership in performance by oper-Ravi Someswarudu at the FIPI ating City Gas Distribution India during the year of award.



Oil & Gas Industry Annual Awards 2020 ceremony held

network for distribution of Natural Gas to consumers in the domestic, industrial, transa Geographical Area (GA) in

IndiGo's sequential **Q3FY21** net loss narrows to ₹620 cr

IANS NEW DELHI

Airline major IndiGo's net Aloss narrowed during the third quarter of FY21 on a sequential basis.

Accordingly, InterGlobe Aviation, which runs the airline, reported a quarterly net loss of ₹620.1 crore from a net during the second quarter of 2020-21.

The airline had reported a net profit of Rs 496 crore during the Q3FY20.

Besides, the company said the capacity for the quarter was down by 40.8 per cent com-pared to the same period last year. The 'Revenue from

Operations' declined by 50.6 cent to ₹4,910 crore quarter compared to the same period last year.

Notice is hereby given to the General Public tha Mr. Kapill Sharma & Mr. Amit Sharma are join owners of Property No. C-2/176, area measuring 68.75 sq.mtrs. Block C-2, Yamuna Vihar, Illaga Shabtrar, Dabi by wither of Sale Deet date:

Shahdra, Delhi by virtue of Sale Deed date 02.12.2019, executed by Mr. Pawan Kuma

Mendiratta. All persons are hereby informed tha above mentioned owners want Sell Ground Floo

above mentioned owners want Sall Ground Ficor of the said property to someone who is taking home loan from ICICI Bank Ltd. for purchase of the Said Ficor, if anybody has any objection? upon the said Sale Deed / said property and its ownership / its Sale and Mortgage, kindly inform the undersigned in writing on the below mentioned address within 07 days of the present. Kumar & Associates (Advocates & Consultants)

Kumar & Associates (Advocates & Consultant 200, Ilad Floor, 23, Shivaji Marg, Moti Nagar, N. Delhi-15 Ph : 011-41112527-28 kumarassociates advocate/@pmail.com

Public Notice

IDBI Bank posts Q3 net profit of ₹378 cr as NII grows

2017, had reported a standalone net loss of ₹5,763 crore

Issues raised over Delhi Govt's new excise policy

PNS NEW DELHI

ndia's top liquor manufacturers have raised strong objections to the new excise policy recommendations prepared by an expert committee and warned that it would lead to monopoly of a few companies, mainly MNCs, and will bring in cartelisation besides hitting Delhi

In a joint representation to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, the four major Indian players have opposed any change in free pricing criteria besides rais-ing red flag over the proposed change in registration of brands, which claimed was "extremely unfair, one-sided and violative of principles of free competition".

PERFECTPAC LIMITED

Regd. Office: 910, Chiranjiv Tower-43, Nehru Place, New Delhi - 110019 E-mail: complianceofficer@perfectpac.com, Website: www.perfectpac.com, CIN No.: L72100DL1972PLC005971, Phone No. 011-26441015-18

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2020

(Rs. In lakhs Quarter Ended Year Ended **PARTICULARS** 31.12.2020 30.09.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.03.2020 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) Total Revenue from operations 1,703.85 1,802.84 1,431.24 4,125.91 5,767.87 7,328.27 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items) 50.07 32.98 356.96 361.08 48.20 40.87 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items) 48.20 50.07 40.87 32.98 356.96 361.08 35.19 31.68 28.96 19.75 257.60 Net Profit / (Loss) for the period after tax and Exceptional items 260.86 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) 31.68 28.96 19.75 for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) 133.26 133.26 133.26 133.26 133.26 133.26 Equity Share Capital Earnings Per Share of Rs. 10/- each 1. Basic (Rs.) 2. Diluted (Rs.) 1.48 19.34 19.58 2.38 2.17 1.48 19.34 2.64 19.58

NOTES: The above unaudited financial results were, subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved and taken or

records by the Board of Directors at its Meeting held on January 28, 2021. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2020, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for the quarter and nine month: ended December 31, 2020 along with review report of the Statutory Auditors is available under the investor section of our website at www.perfectpac.com and on the website of the

Sanjay Rajgarhia

Place: New Delhi Managing Director

This is to inform general public that Mr. Rahu Yadav became the owner of "Plot No. C.P-03 area measuring 100 Sq. Yds., out of Khasn No. 376min., Situated at Krishna Garder Colony, Hadbast Village-Harsaon, Pargana Dasna, Tehsil & Distt.-Ghaziabad, U.P." vide Sale Deed dated 17/03/2015 duly registered with the Sub-Registrar-V Ghaziabad, as Document No.1456, Book No. I. Volume No. 4809, Page No.23-44, on 17/03/2015 and Wil dated 03/09/2016 executed by Mr. Budh Pa Yadav in favour of Mr. Rahul Yadav in respe of his share in the above said property. Nov Mr. Rahul Yadav is mortgaging the above said property with ICICI Home Finance Ltd. & in case anyone has any objection, the sammay be raised within 07 days of this publication to Mr. Muneesh Dhawan/ Mr Sudhir Jain (Advocates), Law Veritas, Unit no 405, 4th Floor, GD-ITL Northex Tower, (A-09) Netaii Subhash Place, Delhi-110034 or ntact at 9066707172/9818228636 (M).

NOTICE

I, Vipin Sharma, holding R.C. M/s. Star International RC. No: B-0259/DEL/PART/1000+/5/55 83/2001 dated: 02/08/2001. office at M-4 Samrat Bhavan. Commercial Complex, Ranjit Nagar, New Delhi - 110008 under the Emigration Act 1983 for export of Manpower, I intend to close my business with immediate effect In the event, there is any complaint against me, the same may be referred to within 30 days of Publication of this notice. Copies of the complaint may also be sent to Protector General of Emigrants, Ministry of External Affairs, Akbar Bhavan, 10th Floor, Satya Marg, Chanakyapuri, New Delhi PLACE: Delhi

Date: 25/01/2021 Sd/- Vipin Sharma (Partner)

Mumbai:Life Insurance

Corporation -owned IDBI Bank reported a standalone net profit of ₹378 crore for December quarter 2020-21 on the back of healthy growth in interest income. The lender, which is under the Reserve Bank of India's prompt corrective action (PCA) since May

DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI OFFICE OF THE EX. ENGINEER (E&M) BP 100 MGD BHAGIRATHI WATER TREATMENT PLANT GOKALPURI: DELHI-110094

STOP CORONA:- MAINTAIN SOCIAL DISTANCE, WEAK MASK, KEEP HANDS HYGINIC Subject:- PRESS Short Tender Notice - N.I.T. No. 04(2020-21)

Date of Uploading on Estimated cost/ Date of Opening Description of work E-Procurement **Earnest Money** of Tender solution/Tender ID & Tender Fee 28-01-2021/ Job work 08-02-2021 at Shifting of part of Jal Vihar main 1200 mm dia into G.K nain 1200mm dia at Vikas Marg under Bhagirathi plant. 2021_DJB_199261_1

For further details in this regard can be seen at https://govtprocurement.delhi.gov.in ISSUED BY P.R.O. (WATER)

EE (E&M) BP

Advt No. J.S.V. 349 (2020-21)

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY **KURUKSHETRA-136119 (HARYANA)**

E-Tender Notice

Advt. No. 01/2021

E-Tenders are invited for the procurement of goods on SITC basis as mentioned below:-

E-Tender ID No.	Description of Goods	Last Selling Date and Time	Opening Date and Time	
NITK/19/EM/02/2021	Supply of various items for Electrical works	10.02.2021; 05:00 PM	11.02.2021; 10:45 AM	
NITK/20/CCN/03/2021	Supply of CAMPUS WIDE LICENSE MATLAB SOFTWARE on SITC basis	10.02.2021; 05:00 PM	11.02.2021; 11:00 AM	
NITK/21/EST/01/2021	Cleaning of Oxidation Pond	10.02.2021; 05:00 PM	11.02.2021; 11:00 AM	
NITK/22/EED/01/2021	Supply of IGBT based Current Source Inverter on SITC basis	10.02.2021; 05:00 PM	11.02.2021; 10:00 AM	
NITK/23/EED/02/2021	Supply of FPGA based - RCP Controller on SITC basis	10.02.2021; 05:00 PM	11.02.2021; 10:15 AM	
NITK/24/EED/03/2021	Supply of three Phase IGBT based matrix converter on SITC basis	10.02.2021; 05:00 PM	11.02.2021; 10:30 AM	
NITK/25/EED/04/2021	Supply of Three phase IGBT based Eleven Level Inverter with Isolation transformer on SITC basis	10.02.2021; 05:00 PM	11.02.2021; 10:45 AM	
NITK/26/CED/01/2021	Supply of MIKE URBAN, MIKE SHE and MIKE ZERO SOFTWARE on SITC basis	10.02.2021; 05:00 PM	11.02.2021; 11:00 AM	
NITK/27/CED/02/2021	Supply of Rectangular Furnace on SITC basis	10.02,2021; 05:00 PM	11.02.2021; 11:30 AM	
NITK/28/CED/03/2021	Supply of Automatic Blain Apparatus on SITC basis	10.02.2021; 05:00 PM	11.02.2021; 11:30 AM	
NITK/29/MED/04/2021	Supply of Dual Range Semi- Micro weighing Balance on SITC basis	10.02.2021; 05:00 PM	11.02.2021; 11:45 AM	

https://mhrd.euniwizarde.com

Registrar I/c

13.01.2021 has been lodged at PS Aman Vihar, Delhi. Sincere efforts have been made by local police to trace out the missing gir but no clue has come to light so far. Any person having any information or clue about this missing girl may kindly inform to the following. E-mail: cic@cbi.gov.in Fax: 011-23011334 Ph.: 011-23014046

011-23015218

DP/634/RD/2021

Sonia

stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.cse-india.com

SEARCH FOR MISSING GIRL

Delhi on 11.01.2021.

General public is hereby informed that one

girl namely Sonia, D/o Shri Nand Ram, R/o

House No. 118-119, Karan Vihar, Part-V

Kirari Delhi. Age 18 yrs., Height 5'3"

Shallow complexion, Normal built, Round

face wearing white top and jeans has been

missing from the area of PS Aman Vihar,

In this regard a case DD No. 84-A, dt

S.H.O. PS Aman Vihar, Delhi Ph.: 011-27581812, 27581559

PROCLAMATION REQUIRING THE APPEARANCE OF A PERSON ACCUSED

(See Section 82 Cr.PC.) Whereas complaint has been made before me that accused

Samshu Ali S/o Sahnwaj Khan R/o Village Malik City, Ghaziabad, U.P. have committed (or is suspected to have committed) the offence in case FIR No. 436/20 U/s 457/380/34 IPC PS Paschim Vihar East, Delhi and it has been returned to a warrant of arrest thereupon issued that the said accused Samshu Ali can not be found and whereas it has been shown to my satisfaction that the said accused Samshu Ali has absconded (or is concealing himself to avoid the service of the said warrant). Proclamation is hereby made that the said accused Samshu

Ali of FIR No. 436/20 U/s 457/380/34 IPC PS Paschim

Vihar East, Delhi is required to appear before this court to

answer the said complaint on or before 03.03.2021 By Order Sh. Puneet Nagpal, Metropolitan Magistrate-07 DP/644/OD/2021 Room No. 289, 2nd Floor, Tis Hazari Courts, Delhi

ईपीएल : मैनचेस्टर युनाइटेड की अप्रत्याशित हार , चेलसी ने ड्रॉ खेला

लंदन। खिताब के प्रबल दावेदार माने जा रहे मैनचेस्टर युनाइटेड के खिलाड़ियों ने प्रीमियर लीग फुटबॉल के इस सत्र मे पहली बार लचर प्रदर्शन किया और आखिरी स्थान पर कबिल शेफील्ड युनाइटेड के हाथो १-२ से अप्रत्याशित हार झेलनी पड़ी। इसके साथ ही नंबर वन पर वापसी का उसका इंतजार लंबा हो गया। वही मैनचेस्टर सिटी शीर्ष पर पहंच गर्ड जिसने पिछले सातो मैच जीते है। मैनचेस्टर के डिफेस की गलतियों क पायदा उठाकर शेफील्ड के ओलिवर बुर्के ने ७४वे मिनट मे विजई गोल दागा।

युर्वेटस , अटलांटा इटालियन

कप के सेमीफाइनल में तूरिन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पाउलो डायबाला जैसे दिग्गजो के बिना खेलते हुए भी युवेटस ने दूसरे डिविजन की टीम स्पाल को ४-० से हराकर इटालियन कप फुटबॉल के सेमीपाइनल में प्रवेश कर लिया। युवेटस के लिए अलवारो मोराटा और जियालुक फ्राबोटा ने पहले हाफ में गोल दागे जबकि देजान कुलुसेवस्की और फेडरिको विएसा ने दूसरे हाफ में गोल किए। दो चरण के सेमीप्राइनल मे युवेटस का सामना इंटर मिलान से होगा जिसने मंगलवार को एसी मिलान के हराया।

मेस्सी की वापसी, बार्सीलोना ने रायों को हराया

मैडिड। निलंबन से लौटे लियोनेल मेस्सी ने बार्सीलोना को उलटफेर का शिकर होने से बचाते हुए एक गोल किया और एक मे सहायक रहे जिसकी मदद से उनकी टीम ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए क्वेपा डैल रे फुटबॉल मे दूसरे डिविजन के क्लब रायो वालेकानो को २-१ से मात दी। स्पेनिश सुपर क्य प्राइनल मे विरोधी खिलाड़ी पर प्रहार के करण दो मैचो क निलंबन झेल चुके मेस्सी ने ६९वे मिनटमे बराबरी का गोल दागा। इसके बाद 80वें मिनट में प्रेंची डि जोग के गोल में सहायक की भूमिक निमाई। रायों के लिए फ्रान गार्शिया ने ६३वे मिनट मेगोल किया था।

इंग्लैंड में क्रिकेटरों के लिए होगा नस्लवाद निरोधक कोर्स

लंदन। इग्लैंड में महिला और पुरुष क्रिकेटरो केलिए नस्लवाद निरोधक प्रशिक्षण कोर्स शुरू किया जाएगा जबकिएकसर्वे मे खुलासा हुआ है कि एक तिहाई से अधिक अश्वेत, एशियाई और अल्पसंख्यक देशज खिलाड़ियों को खेल मे पूर्वाग्रहो व्य सामना करना पड़ता है।

टूट रहा है खिलाड़ियों का मनोबल: आईओसी

जिनेवा। अतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने तोक्यो ओलंपिक के फिर स्थगित होने या रह होने को लेकर लग रही अटक्लबाजी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी वर्चा से इन खेलो की तैयारी मे जुटे हजारो खिलाड़ियो का मनोबल टूट रहा है। आईओसी और जापान में आयोजन समिति ने बारबार कहा है कि तोक्यो ओलंपिक के लिए कोई प्लान बी नहीं है। पिछले साल क्रेरोना महामारी के करण खेल एक साल के लिए स्थगित कर दिए गए थे।

भारत को कड़ी चुनौती देंगे : फ्लावर 🔵 इंग्लैंड के पास

दमदार खिलाडी

भाषा। नई दिल्ली

इंग्लैंड की भारतीय धरती पर 2012 की जीत के प्रमुख सूत्रधार रहे पूर्व कोच एंडी फ्लॉवर का मानना है कि मेहमान टीम इस बार भी नौ साल पुरानी कहानी दोहरा सकती है क्योंकि उसके पास मेजबान टीम को चुनौती देने के लिए दमदार खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड की 2012 की 2-। से जीत में दोनों स्पिनरों ग्रीम स्वान और मोंटी पनेसर तथा स्टार बल्लेबाज केविन पीटरसन ने अहम भूमिका निभाई थी। पिछले एक दशक में किसी विदेशी टीम की भारतीय सरजमीं पर श्रृंखला में यह एकमात्र जीत है। जिम्बाब्वे के पर्व कप्तान और इंग्लैंड के सबसे सफल कोचों में से एक फ्लॉवर आगामी श्रृंखला को लेकर कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहते हैं

पृथक्वास लगभग पूरा, शुरू हो गई

मेलबर्न। कोरोना वायरस महामारी के कारण पृथकवास पूरा होने के बाद अब

दुनिया के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी दो सप्ताह खाली रहने के बाद अगले तीन

सप्ताह आस्टेलियाई ओपन में मसरूफ होंगे। आस्टेलियाई ओपन आठ से

21 फरवरी तक खेला जाएगा। खिलाडियों को चार्टर्ड उडानों से मेलबर्न

पहुंचने के बाद कड़े पृथकवास में रहना पड़ा क्योंकि उड़ान में कोरोना

संक्रमण के मामले पाए गए। खिलाड़ियों ने इसकी शिकायत भी की थी।

अब अधिकांश खिलाड़ियों का पृथकवास गुरूवार की शाम या शुक्रवार की

सुबह तक पूरा हो जाएगा। सेरेना विलियम्स ने पृथकवास के बारे में एक

इंटरव्यू में कहा , यह बहुत बहुत कड़ा है।लेकिन इसकी जरूरत भी है।तीन

साल की बच्ची की मां के लिए यह बहुत कठिन है लेकिन सुरक्षा के लिए

जरूरी भी। दुनिया के दूसरे नंबर के टेनिस खिलाड़ी रफेल नडाल ने

सीएनएन से कहा कि अंतरराष्ट्रीय टेनिस खिलाडियों को व्यापक नजिरया

आस्ट्रेलियाई ओपन की तैयारी



हुए कहा कि लंबी अवधि के प्रारूप मेहमान टीम को अब हल्के से नहीं लिया जा सकता है। फ्लॉवर ने पीटीआई-भाषा से कहा, भारत ने आस्ट्रेलिया में टी20 श्रृंखला जीती और इस साल मेलबर्न और ब्रिस्बेन में टेस्ट मैच जीते तथा दो साल पहले टेस्ट श्रंखला अपने नाम की थी जिससे पता चलता है कि मेहमान टीम के पास अपनी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त मौके होते हैं। उन्होंने कहा, क्रिकेट की प्रकृति बदल गई है। बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों अधिक चुस्त बन गए हैं और वे अधिक आक्रामक खेल खेलते हैं। हमारे चारों तरफ हो रहे इन परिवर्तनों पर गौर किया जाना चाहिए। अब ए मैच लेकिन उन्होंने भारत की हाल में नीरस नहीं होंगे। फ्लॉवर से पूछा गया आस्ट्रेलिया में जीत का उदाहरण देते कि चेन्नई में पांच फरवरी से शुरू होने

भारत ए से भिड़ेगी कोहली की टीम

पहली बार इंग्लैंड में टेस्ट श्रृंखला से पहले जोर आजमाइश

लंदन। विदेश में टेस्ट श्रृंखला की तैयारी के तहत पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम इस साल जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ उसकी सरजमी पर पांच टेस्ट मैचो की श्रृंखला से पहले नाटिघमशर में अपनी ही ए टीम के खिलाफ अभ्यास मैच खेलेगी। यह मैच नाटिघमशर के काउंटी मैदान पर खेला जाएगा लेकिन अभी इसकी तारीख तय नहीं है। भारतीय टीम व्ये इंग्लैंड दौरे में अगस्त और सितंबर में पांच टेस्ट मैचो की श्रृंखला खेलनी है। इस श्रृंखला का पहला मैच चार 📕

अगस्त से नाटिघम में खेला जाएगा। नाटिघमशर काउंटी क्रिकेट क्लब ने बयान में कहा, इन गर्मियों में क्वउंटी ग्राउंड पर दुनिया के कुछ बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर खेलते हुए दिखेंगे। तब हम भारत और भारत ए क स्वागत करेगे। इसमें कहा गया , इंग्लैंड के खिलाफ अगस्त में पांच टेस्ट मैचो की श्रुखला से पहले विराट कोहली की टीम चार दिवसीय अभ्यास मैच मे भारत ए से खेलेगी। दूसरा अभ्यास मैच लीसेस्टरशर मे २८ जुलाई से खेला जाएगा। बयान मे कहा गया , दूसरा अभ्यास मैच २८ जुलाई से लीसेस्टरशर मे खेला जाएगा।

वाली चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला में पास दमदार खिलाडियों का अच्छा वह किस टीम को जीत का दावेदार मानते हैं तो उन्होंने किसी एक टीम का नाम नहीं लिया। किस टीम का पलडा भारी रहेगा यह कहना अभी जल्दबाजी

पाकिस्तान के स्पिनरों ने गुरुवार को

यहां तीसरे दिन अंतिम क्षणों में तीन

विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका को

पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में गहरे संकट

में डाल दिया। दक्षिण अफ्रीका ने

तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक

चार विकेट पर 187 रन बनाए हैं। उसे

अभी केवल 29 रन की बढ़त हासिल

हुई है। पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका

के पहली पारी के 220 रन के जवाब

में 378 रन बनाकर 158 रन की

मजबूत बढ़त हासिल की थी। एडेन

संयोजन है जो खुद को बेहतर या जीत की स्थिति में ला सकते हैं। फ्लॉवर ने निश्चित तौर पर कप्तान जो रूट, तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट होगी। हालांकि इंग्लैंड की टीम के ब्रॉड तथा आलराउंडर बेन स्टोक्स के

पाक ने पहले टेस्ट पर कसा शिकंजा

ंदक्षिण अफ्रीका के

आखिर में तीन विकेट

127 रन जोड़कर दक्षिण अफ्रीका की

उम्मीदें जगाई लेकिन पाकिस्तान ने

दिन के अंतिम क्षणों में 33 गेंद के

अंदर इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा

अनुभवी फाफ इप्लेसिस (10) को

आउट करके मैच पर अपना शिकंजा

कस दिया। लेग स्पिनर यासिर शाह

ने 53 रन देकर तीन और बाएं हाथ के

मार्कराम (74) और रासी वान डर स्पिनर नौमान अली ने 27 रन देकर

ड्सेन (64) ने दूसरे विकेट के लिए एक विकेट लिया है।

लेकर खेल पलटा

संदर्भ में यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस श्रृंखला में भी जो टीम महत्वपूर्ण अवसरों पर बेहतर प्रदर्शन करेगी उसका पलड़ा भारी रहेगा। काफी कुछ मैच के दिन और महत्वपूर्ण मौकों का फायदा उठाने पर निर्भर करेगा। इंग्लैंड के पास कुछ बेहतरीन खिलाडी हैं जिन्होंने खेल के सभी प्रारूपों में अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले एक दशक में इंग्लैंड की सफलता का काफी श्रेय एंडरसन और ब्रॉड की तेज गेंदबाजी जोड़ी को जाता है जिन्होंने मिलकर 1100 से अधिक टेस्ट विकेट लिए हैं। फ्लॉवर ने स्वीकार किया इनके संन्यास लेने के बाद उनकी जगह भरना मुश्किल होगा। सभी टीमें इस तरह के बदलाव के दौर से गुजरती हैं जब उन्हें अपने स्टार खिलाडियों की जगह भरनी होती है। तेज गेंदबाजी आक्रमण तैयार करने में थोड़ा समय लगता है तथा एंडरसन और ब्रॉड एक दशक से भी अधिक समय इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभाले हुए हैं। नए गेंदबाजों के लिए उनकी जगह भरना आसान

PUBLIC NOTICE

Grugarn, Haryana vide Transfer Deed in Blood Relation dated 04.09.2019 registration no. 9365 st SR-Wazirabad, Gurugram. That my client has ost two original property chain documents i.e Transfer Deed in Blood relation dated

ranster Deed in Blood relation dates 6.04.2016 executed by Basanti in favour of lanoj registration no. 543 and Transfer Deed in lood relation dated 23.11.2016 executed by fanoj in favour of Anita registration no. 22.355 oth with SR-Gurgaon and in this regard NCR ated 05.09.2019 has been registered as NCR o. 0564/2019. Any person/bank/financia istitution having any claim/right, lien any bjection whatsoever in regard to above roperty, should notified to the undersignedi/Adv

ction whatsoever in regard to above etry, should notified to the undersigned/Adv. at Mehan, E-713, Karkardooma Court, -110092 along with documentary evidence raddress through registered AO within 15 from the date of publication of this notice which any claim, lien or objection shall be ned to have been waived.

Vishal Mehan (Advocate), 3, Karkardooma Court, Delhi-110092 Mobile No. 9311215181

नोटिस

M/s- स्टार इंटरनेशनल आर.सी

नंबर B-0259/DEL/PART/1000+/

5/5583/2001 दिनांक: 02/08/2001

कार्यालय M-4 सम्राट भवन

कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रंजीत नगर,

विपिन शर्मा, स्वामित्व आर.सी.

E-713, Karkardoo

सौरव गांगुली की एंजियोप्लास्टी की गई

कोलकाता। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) अध्यक्ष सौरव गांगुली की गुरुवार को यहां एक निजी अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई। अस्पताल के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मशुहर हृदयरोग विशेषज्ञ देवी शेट्टी ने गांगुली के तमाम परीक्षणों की जांच करने और अस्पताल के



चिकित्सकों के साथ परामर्श करने के बाद एंजियोप्लास्टी करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि इस 48 वर्षीय पूर्व भारतीय कप्तान की धमनियों के अवरोध को हटाने के लिए दो स्टेंट डाले गए। एक वरिष्ठ चिकित्सक ने पीटीआई से कहा, उनकी स्थिति का आकलन करने के बाद हमने एंजियोप्लास्टी करने का फैसला किया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान 48 वर्षीय गांगुली को बुधवार को सीने में बेचैनी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उनके कई परीक्षण किए गए।

एन.के. टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : ओमैक्स स्ववायर, प्लॉट नंबर 14, 5वां तल, जासोला डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जासोला, नई दिल्ली - 110025

एल17299डीएल1983पीएलसी163230, फोन : +91 11 61119313 ई–मेल आईडी : n.ktexiles123@gmail.com,

वेबसाइट : www.nktil.com

तद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक सं. 05/2020-21 दिनांक 09 फरवरी, 2021 (मंगलवार) को अप. 05.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय ओमैक्स स्ववायर, प्लॉट नंबर 14, जासोला ढिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जासोला, नई दिल्ली – 11002: निम्नलिखित मदों पर विचार हेत् आयोजित की जाएगी

सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के निबन्धनों में 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही हेत् कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम अभिलेखबद्ध करना।

समाध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार करना।

बोर्ड के आदेश दारा

एन.के. टेक्सटाइल इंडस्टीज लिमिटेड

दिनांकित : 28-01-2021 स्थान : नई दिल्ली

बलबीर सिंह डीआईएन : 00027438

हस्ता./-

प्रीमियम मर्चेण्टस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : ओमैक्स स्क्वायर, प्लॉट नंबर 14, 5वां तल, जासोला डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जासोला, नई दिल्ली - 110025 सीआईएन : एल51909डीएल1985पीएलसी021077, फोन : +91 11 61119658

ई-मेल आईडी : premiummerchants123@gmail.com, वेबसाइट : www.pmltd.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक सं. 05/2020-21 दिनांक 09 फरवरी, 2021 (मंगलवार) को अप. 04.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय ओमैक्स स्ववायर, प्लॉट नंबर 14, जासोला डिस्टिक्ट सेन्टर, जासोला, नई दिल्ली - 11002 में निम्नलिखित मदों पर विचार हेतु आयोजित की जाएगी :

सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 वं निबन्धनों में 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीन परिणाम अभिलेखबद्ध करना।

समाध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार करना।

बोर्ड के आदेश द्वार वास्ते प्रीमियम मर्चेण्ट्स लिमिटेड हस्ता./ (बलबीर सिंह) निदेशव

रखना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। उन्होंने उन खिलाडियों से सहानुभृति जताई जो उडानों में कोरोना संक्रमितों के करीबी संपर्क में आए थे और उन्होंने 14 दिन चौबीसों घंटे होटल के कमरे में रहना पड़ा।

महिला एशियाई कप फुटबॉल

अगले साल 20 जनवरी से छह

फरवरी तक भारत में

नर्ड **दिल्ली।** महिला एशिया कप 2022 भारत में 20 जनवरी से छह फरवरी के बीच खेला जाएगा। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने गुरूवार को यह जानकारी दी। टूर्नामेंट में 12 टीमें भाग लेंगी जबकि पिछले सत्र में आठ ही टीमें थी। इन टीमों को चार समृहों में बांटा जाएगा और 18 दिन के भीतर 25 मैच खेले जाएंगे। आठ टीमें क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेंगी। यह टूर्नामेंट 2023 फीफा महिला विश्व कप का क्वालीफिकेशन टूर्नामेंट भी होगा। महिला विश्व कप में 32

श्रीकांत व सिंधु की लगातार हार

विश्व टूर प्राइनल्स नॉक्आउट से

लगभग बाहर

भाषा। बँकाक

भारतीय बैडमिंटन खिलाडी पी वी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत गुरूवार को यहां बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल्स में अपने दूसरे दौर के मैचों में पराजित होने के बाद नॉकआउट हफ्ते पहले ही विश्व चैम्पियन सिंधु मेरी टाइमिंग अच्छी नहीं थी, इसलिए की।



को रतचानोक इंतानोन के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पडा था और इस बार भी किस्सा वैसा ही रहा और उन्हें तीसरी वरीयता प्राप्त थाईलैंड की खिलाड़ी से 18-21 13-21 से हार झेलनी पड़ी। सिंधु ने मैच का रिकार्ड 3-0 था। वांग ने एक गेम के बाद कहा, यह मेरा दिन नहीं था। चरण से लगभग बाहर हो गए। एक पहला गेम गंवाने से अंतर पैदा हुआ।



थोडी निराश हं। वहीं श्रीकांत को ताईवान के वांग जु वेई के खिलाफ एक गेम से बढ़त बनाने के बाद हार मिली और इस मैच से पहले उनका दुनिया के 12वें नंबर के खिलाफ जीत पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 19-21 21-9 21-19 से जीत दर्ज

को भी भेजी जा सकती है।

नई दिल्ली - 110008 मैनपावर के निर्यात के लिए उत्प्रवास अधिनियम 1983 के तहत में अपने व्यवसाय को तत्काल प्रभाव से बंद करने का इरादा रखता हूं। घटना में, मेरे खिलाफ कोई शिकायत है, उसी को 30 दिनों के भीतर संदर्भित किया जा सकता है। इस नोटिस का प्रकाशन शिकायत की प्रतियां रक्षा महानिदेशक विदेश मंत्रालय ,अकबर भवन, 10 वीं मंजिल, सत्या मार्ग, चाणक्यपुरी नई दिल्ली - 110021

स्थान : दिल्ली दिनांक : 25.01.2021 एस डी / - विपिन शर्मा (साथी)

गुमशुदा की तलाश



दिनांकित : 28-01-2021

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम सुनिता, पुत्रीः दानवीर सिंह, निवासी: म.नं. ई-1/302, नन्द नगरी, दिल्ली है, जो कि दिनांक 29.12.2020 से अपने घर से लापता है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है उम्रः लगभग 21 वर्ष, कदः ४'8", रंगः साफ, चेहराः लम्बा शरीरः मध्यम, जिसने गुलाबी रंग का सूट

क्रीम रंग की सलवार, लाल रंग की जरसी और काले रंग की सैण्डल पैरों में पहनी है। इस संदर्भ में डीडी नं. 140-ए, दिनांक 30.12.2020 को थाना नन्द नगरी, दिल्ली में दर्ज है।

हर संभव कोशिश के बाद भी इस लड़की का कोई सराग नहीं मिल पाया है। अगर किसी को इस लड़की के बारे में कोई जानकारी मिले

तो कृपया निम्नलिखित फोन नम्बरो पर सूचित करे। वेबसाईटः http://cbi.nic.in

ई-मेलः cic@cbi.gov.in

फैक्सः 011-24368639 फोन नं: 011-24368638, 24368641 थाना नन्द नगरी, दिल्ली

फोन नं.: 011-22585985, 22583307 DP/528/NE/2021

बाजार में पाचवें दिन गिरावट जारी

●सेंसेक्स ५३६ अंक लुढ़क

भाषा। मुंबई


शेयर बाजार में बृहस्पतिवार को लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में गिरावट जारी रही और बीएसई सेंसेक्स 536 अंक लुढ़क कर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में भारी बिकवाली और विदेशी पंजी निकासी के बीच निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं।

कारोबारियों के अनुसार निवेशक अगले सप्ताह केंद्रीय बजट से पहले जोखिम लेने से बच रहे हैं। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई

सेंसेक्स 535.57 अंक यानी 1.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ एक्सिस

2020 में वैश्विक स्तर पर सोने की मांग घटकर 11

साल के निचले स्तर पर मुंबई। वैश्विक स्तर पर सोने की



पांच दिनों में कल मिलाकर सेंसेक्स प्रतिशत की गिरावट आई।

13,817.55 अंक पर बंद हुआ। यह ओएनजीसी और आईसीसीआई बैंक लगातार पांचवां कारोबारी सत्र है, जब शामिल हैं। इनमें 6.16 प्रतिशत की बाजार में गिरावट आई है। पिछले गिरावट आई। वैश्विक मोर्चे पर 2,917.76 अंक जबिक निफ्टी तीन महीनों में प्रतिशत अंक में एक 827.15 अंक टूटा है। सेंसेक्स के दिन की सबसे बड़ी गिरावट आई। शेयरों में सर्वाधिक नुकसान में यह स्थिति तब है जब अमेरिकी एचयूएल का शेयर रहा। इसमें 3.65 फेडरल रिजर्व ने मानक ब्याज दर को इसके अलावा जिन शेयरों में गिरावट खरीद कार्यक्रम जारी रखने की दर्ज की गई, उनमें मारुति, एचडीएफसी बैंक, पावरग्रिड, में वृद्धि के बीच एशियाई और यूरोपीय

एनएसई निपटी ननस्य २८ 13,817.55

मनाफावसली के बीच वाल स्टीट में शन्य के करीब यथावत रखा और बांड प्रतिबद्धता जताई। कोविड-19 मामलों 46,874.36 अंक पर बंद हुआ। इंडसइंड बैंक, एचसीएल टेक और शेयर बाजारों में भी बिकवाली दबाव नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) बजाज फिनसर्व शामिल हैं। दूसरी रहा। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज अटकलों का तेज होना और भविष्य में का निफ्टी भी 149.95 अंक यानी तरफ, लाभ में रहने वाले शेयरों में के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा राजकोषीय और मौद्रिक नकदी में

बजट में पेश हो सकती है सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निजीकरण की नीति

नर्ड दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

आगामी आम बजट मे नई निजीक्सण नीति वी स्परेखा पेश कर सकती है। इसके तहत सरकार गैर-रणनीति क्षेत्र से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमो से बाहर निक्लेगी। सूत्रो ने यह जानकरी दी। मामले की जानकरी खबने वाले सत्रो ने कहा कि एक अप्रैल से शुरूहो रहे अगले वित्त वर्ष के लिए सरकर संभवतः उन रणनीतिक क्षेत्रो के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमो की पहचान करेगी, जिनमे उसे बने रहना है।

वैश्विक बाजारों में मुनाफावसूली के कारण बाजार में सतर्क रुख अपनाया जा रहा है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अनुकूल और समर्थनकारी नीति के बावजूद वैश्विक जोखिम मानदंड बढा है। इसका करण इक्विटी बाजार में

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the General Public that Mr. Kapil Sharma & Mr. Arnit Sharma are joint owners of Property No. C-2176, area measuring 68.75 sq.mtrs, Block C-2, Yamuna Vihar, Illaga Shahdra, Delhi by virtue of Sale Deed dated C2.12.2019, executed by Mr. Pawan Kumar Mendiratta. All persons are hereby informed that above mentioned owners want Sell Ground Floor of the said property to someone who is taking home loan from ICICI Bark Ltd. for purchase of the Said Floor, if anybody has any objection/s upon the said Sale Deed / said property and its ownership / Its Sale and Mortgage, kindly inform the undersigned in writing on the below mentioned address within 07 days of the present.

Kumar & Associates (Advocates & Consultants). 90. Inter Floor 23. Shivisi Merc Mell Nesse N. Heibl-15 mar & Associates (Advocates & Consultari 0, Ind Floor, 23, Shivaji Marg, Moti Nagar, N. Delhi-15 : 811-41172527-28 | kumarassociates advocatellional.com



नाम परिवर्तन

पंकज जैन निवासी-873, सी-4, नीतिखण्ड-I, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, ने मेरे नाबालिंग पुत्र अयान जैन का नाम बदल कर अयान के जैन कर दिया है।

PD(8898)C

Ġ **TECHNO ELECTRIC & ENGINEERING COMPANY LTD.**

CIN: L40108UP2005PLC094368 orate Office: 18, Park Plaza, South Block 71 Park Street, Kolkata-700 016, Tel.: 033-4051 3000, Fax: 033-4051 3326 E-mail: desk investors@techno.co.in Website: www.techno.co.in

NOTICE rsuant to Regulation 29 of the SEB

Listing Obligations and Disclosure equirements) Regulations 2015, Notice is reby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on saturday, the 13th day of February, 2021 to ter alia consider and take on record the Inaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter and nine months ended 31st December, 2020.

For Techno Electric & Engineering Company Ltd

Niranjan Brahma Place: Kolkata Date: 28.01.2021 Company Secretary

आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/शेल, आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए एकल पैकेट प्रणाली आधारित खुली निविदा सूचना सं. एमसीएफ/आरबीएल/टेण्डर/एसडब्ल्यू फैंब ऑफ बैंक पीस & स्ट्रक्चरल मेम्बर/2020–21/सी237 दिनांक 25.01.2021 आईआरईपीएस के पोर्टल www.ireps.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती है :-

कार्य का नामः कार्य की अनुमानित लागत(१) निविदा प्रपन्न का मूल्य (१) 63,68,544.00 5,000.00 मात्र अमानत राशि (१) फर्म को अपेक्षित अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट की छूट लेने के लिए ई-बिड जमा करने के समय बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन जमा करना है। जो कि अध्याय- IV स्ट्रक्चरल मेम्बर और बैक पीस की फिटमेंट के एनेक्सर - VI पर है। कार्य की मात्राः 600 सी/सेट साइड वाल्। और वेल्डिंग। कार्य समापन की अवधिः 12 माह या पहले

 निविदा जमा करने की अवधि—दिनांक 04.02.2021 से 18.02.2021 । निविदा बंद होने की तिथि एवं समय - दिनांक 18.02.2021 को 15:00 बजे।

निविदा खुलने की तिथि एवं समय – दिनांक 18.02.2021 को 15:15 बजे।

निविदा सूचना, एलीजीबिलिटी क्राइटेरिया, टर्न्स एवं कंडीशन IREPS वेबसाइट www.ireps.gov.in पर निविदा प्रपन्न में उपलब्ध हैं। **उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/शेल**

ई-एडवर्टाइज्ड टेंडर नोटिस सं. 27/ईटी /2020-21 दिनांक: 25.01.2021 क्र.सं. निविदा सं. माल का विवरण मात्रा नियत तिथि 05211020 1.5 एसक्यू एमएम रैंड थिन वॉल्ड फ्लैक्स 158541 18.02.2021

इलास्ट केंबल विद सीयू कन्डक्टर ess: www.ireps.gov.in & www.mcf.india nrailways.gov.in उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/विद्युत

बैंक, एसबीआई, कि बजट से पहले अनिश्चितता और गिरावट की आशंका है। बजट में वृद्धि को गति देने पर हो जोर

अगले सप्ताह पेश होने वाले बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने पर बहुत ज्यादा जोर के बजाए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उपायों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इंडिया रेटिंग्स की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। राजकोषीय घाटा

2021-22 में 6.2 प्रतिशत जबिक इस साल 7 प्रतिशत के करीब रहने का सरकार अगर देनदारी का निपटान करती है और कुछ खर्चों को 2021-सकता है। देवेन्द्र पंत ने रिपोर्ट में बजट में राजकोषीय घाटा 6.2 प्रतिशत रखे जाने का अनुमान है।

PERFECTPAC LIMITED

Regd. Office: 910, Chiranjiv Tower-43, Nehru Place, New Delhi - 110019 E-mail: complianceofficer@perfectpac.com, Website: www.perfectpac.com, CIN No.: L72100DL1972PLC005971, Phone No. 011-26441015-18

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER

	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
PARTICULARS	31.12.2020 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	31.12.2019 (Unaudited)	31.12.2020 (Unaudited)	31.12.2019 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)
Total Revenue from operations	1,703.85	1,802.84	1,431.24	4,125.91	5,767.87	7,328.27
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	48.20	50.07	40.87	32.98	356.96	361.08
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	48.20	50.07	40.87	32.98	356.96	361.08
Net Profit / (Loss) for the period after tax and Exceptional items	35.19	31.68	28.96	19.75	257.60	260.86
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	35.19	31.68	28.96	19.75	257.60	258.49
Equity Share Capital	133.26	133.26	133.26	133.26	133.26	133.26
Earnings Per Share of Rs. 10/- each 1. Basic (Rs.) 2. Diluted (Rs.)	2.64 2.64	2.38 2.38	2.17 2.17	1.48 1.48	19.34 19.34	19.58 19.58

NOTES: 1. The above unaudited financial results were, subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved and taken on

records by the Board of Directors at its Meeting held on January 28, 2021.

The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2020, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2020 along with review report of the Statutory Auditors is available under the investor section of our website at www.perfectpac.com and on the website of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.cse-india.com

> Sanjay Rajgarhia Managing Director

Date: 28.01.2021

3,759.6 टन रह गई, जो इसका 11 साल का निचला स्तर है। विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही कमजोर रहने और दुनियाभर में कोविड-19 से जुड़ी अड़चनों के

मांग बीते साल (2020) घटकर चलते उपभोक्ता धारणा बुरी तरह प्रभावित हुई, जिससे सोने की वैश्विक मांग में बड़ी गिरावट दर्ज हुई। सोने की कुल उपभोक्ता मांग

2019 में 4,386.4 टन रही थी।

🛡 राजकोषीय घाटा 6.2 प्रतिशत रहने क अनुमानः रिपोर्ट

भाषा। मुंबई

अनुमान है। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में राजकोषीय घाटा 7.96 लाख करोड़ रुपए यानी जीडीपी का 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया था। लेकिन इंडिया रेटिंग्स के अनुसार 22 में ले जाती है तो यह 13.44 लाख करोड़ रुपए या 7 प्रतिशत तक जा कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के